#### **AVON MERCANTILE LIMITED**

**Registered Office:** 

S Global Knowledge Park, 19A & 19B, Sector-125, Gautam Buddha Nagar,

NOIDA-201301 (U.P.)

CIN: L17118UP1985PLC026582 Phone: 0120-3355131, 3859000

www.avonmercantile.in

To, Date: 05.11.2021

The Listing Manager, Bombay Stock Exchange Limited, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai- 400001

Sub.: Filing of clipping of the Notice published in the newspapers regarding Board Meeting to be held on 12<sup>th</sup> November, 2021.

**Scrip Code: 512265** 

We enclose herewith the copies of Newspaper publication in respect of Notice of Board meeting to be held on 12<sup>th</sup> November, 2021, published in the following newspapers:

- 1) Financial Express English dated 4<sup>th</sup> November, 2021
- 2) Jansatta Hindi dated 4<sup>th</sup> November, 2021

Kindly take the same on record and oblige.

Thanking you,

Yours faithfully,

Disha Soni

Company Secretary

ACS:42944

**Gujarat Informatics Limited** Block No. 2, 2nd Floor, C & D Wing, Karmayogi Bhavan, Sector - 10 A, Gandhinagar

nabling e-Governance Phone: 079-23256022, Fax: 079-23238925 Website: http://www.gil.gujarat.gov.in NOTICE INVITING BIDS

GIL invites Bid through GeM portal route for Request for Proposal (RFP) for Selection of Agency for Operation & Maintenance of State-Wide IT Infrastructure like GSWAN & GSDC, GSCAN and GoG Wi-Fi of Department of Science & Technology, Government of Gujarat. Interested parties may visit http://www.gil.gujarat.gov.in & GEM Portal for eligibility criteria & more details about the bids.

Managing Director



**FORM No.5** THE DEBTS RECOVERY TRIBUNAL 600/1, University Road Near Hanuman Setu Mandir, Lucknow (Areas of Jurisdiction : Part of Uttar Pradesh) SUMMONS FOR FILING REPLY & APPEARANCE BY PUBLICATION

O.A. No. 273/2021 Dated: 01.11.2021

(Summons to defendant under Section 19(4), of the Recovery of debts due to Bank and Financial Institution Act, 1993 read with rules 12 and 13 of the Debts Recovery Tribunal Procedure Rules, 1993) APPLICANT PUNJAB & SIND BANK

DINESH KUMAR SHARMA & ORS .....DEFENDANTS

1. SHRI DINESH KUMAR SHARMA, adult, S/o Late Raghuwar Dayal Sharma R/o House No. 1419, Nand Nagari Peer Patheli, Modinagar, Ghaziabad (U.P.)

2. SMT. RASHMI SHARMA, adult. W/o Dinesh Kumar Sharma R/o House No. 1419, Nand Nagari Peer Patheli, Modinagar, Ghaziabad (U.P.)

3. SHRI SUNIL KUMAR, adult, S/o Shri Bir Sahaya R/o. House No. C-19, Khasra No. 190-196, Bhagat Singh Park, Siraspur, Delhi-42

In the above noted application, you are required to file reply/evidence in Pape Book form in two sets along with documents and affidavits (if any) personally or through your duly authorized agent or legal practitioner in this Tribunal, after serving copy of the same on the applicant or his counsel/duly authorized agent after publication of the summons and thereafter to appear before the Tribunal on 22.12.2021 at 10.30 A.M. failing which the application shall be heard and decided in

> Registrar Debts Recovery Tribunal, Lucknow

#### INTEC CAPITAL LTD **Publication Demand Notice**

NOTICE UNDER SEC. 13 (2) OF THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSESTS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT 2002 Demand Notice dated 14.10.2021 Sent on 16.10.2021 by Speed Post (1) M/s O P ENGINEERING WORKS (BORROWER)

Through its Proprietor, Lakshmikant Sharma, 3236/14, Jai Mata Market, Tri Nagar, Delhi - 110035 Also At: Plot no-159-a/1, Village Saffipur Ranhaulla, Abadi known as Rishal Garden, Delhi (2) MR. LAKSHMIKANT SHARMA (GUARANTOR) R/o - L-107, Shastri Nagar, Delhi - 110052

(3) MRS. SANGEETA SHARMA (GUARANTOR)

R/o - L-107, Shastri Nagar, Delhi - 110052

SUBJECT: Loan Account No. LNNHP00213-140002602 dated 31.07.2013. You, committed default n repayment of loans and as such your Loan Account maintained with Intec Capital Limited was declared Non-Performing Asset (NPA) on30.12.2017 and a sum of Rs. 49,57,333/- (Rupees Fourty Nine Lakh Fifty Seven Thousand Three Only) is outstanding as on 31.08.2021 The Intec Capital Limited issued notice dated 14.10.2021 under the Act on 16.10.2021 calling upon

you to repay the outstanding amount of Rs. 49,57,333/- (Rupees Fourty Nine Lakh Fifty Seven Thousand Three Only) is outstanding as on 31.08.2021. The said notices were returned back unserved with the remark "UNCLAIMED and INSUFFICIENT ADDRESS". Hence the said notice is You are called upon to pay Rs. 49,57,333/- (Rupees Fourty Nine Lakh Fifty Seven Thousand Three

Only) within 60 days from the date of this notice failing which Intec Capital Limited will be constrained to exercise its rights of enforcement of security Interest as against the Secured Assets given in the

**DETAILS OF HYPOCETHATED ASSETS** QUANTITY S.NO. **DETAILS OF MACHINERY** VMC MODEL V- 510 MB

### **Anheuser Busch InBev India Limited**

(Formerly known as SABMiller India Limited) CIN: U65990MH1988PLC049687

Registered office at Unit No. 301-302, Dynasty Business Park, B Wing, 3rd Floor, Andheri Kurla Road, Andheri (East), Mumbai, Maharashtra- 400059, India Email: Nishi.Vijayvargiya@in.ab-inbev.com

#### NOTICE OF THE EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING OF

Phone: 022-30913600

#### ANHEUSER BUSCH INBEV INDIA LIMITED

NOTICE is hereby given that an Extra-Ordinary General Meeting ("EGM") of Anheuser Busch InBev India Limited ("Company") will be held on Tuesday, November 30, 2021 at 12.00 noon (IST) through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio-Visual Means ("OAVM") to transact the businesses as set out in the Notice of the said EGM, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("Act"), the General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020 and the General Circular No. 10/2021 dated June 23, 2021, issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA").

Electronic copies of the Notice of the EGM and procedure and instructions for e-voting have been sent on November 3, 2021, to all those Members whose email IDs are registered with the Company/ Depositories.

The Notice of the EGM is also available on the web site of NSDL (agency for providing e-Voting facility) at www.evoting.nsdl.com.

The Company is providing the facility to its Members to exercise their right to vote on the businesses at set forth in the Notice of the said EGM by electronic means through both remote e-voting and e-voting at the EGM. Members participating through VC/OAVM facility shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Act. All Members are informed

- 1. Members may attend the EGM through VC/ OAVM or watch the live web-cast at https://www.nsdl.co.in/, by using their remote e-voting credentials. The instructions for participating through VC/ OAVM and the process of e-voting, including the manner in which Members holding shares in physical form or who have not registered
- e-mail address can cast their vote through e-voting, are provided as part of the Notice of the EGM. Members whose names appear in the register of members or in the register of beneficial
- owners maintained by the depositories/ RTA as on the cut-off date of Tuesday, November 23, 2021 shall only be entitled to avail the remote e-voting facility or vote, as the case may be, at the EGM. Remote e-voting shall commence at 9.00 a.m. (IST) on Saturday, November 27, 2021 and
- end at 5.00 p.m. (IST) on Monday, November 29, 2021. Remote e-voting shall not be allowed beyond 5.00 p.m. (IST) on November 29, 2021 and once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently. In case a person has become a Member of the Company after dispatch of the Notice but on
- or before the cut-off date for remote e-voting, or has registered the e-mail address after dispatch of the Notice, such Member may obtain the user ID and password in the manner as provided in the procedure and instructions of e-voting stated in the Notice of EGM. Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the EGM may attend the EGM through VC/ OAVM but shall not be entitled to cast their vote again. Members who have not cast their vote through remote e-voting and are present in the EGM through VC/
- OAVM, shall be eligible to vote through e-voting at the EGM. 7. Members who have not registered their e-mail address are requested to register the same in respect of shares held in electronic form with the Depository through their Depository Participant(s) and in respect of shares held in physical form by writing to the Company's Registrar and Share Transfer Agent, Link Intime India Private Limited, C 101, 247 Park, L B S Marg, Vikhroli (West), Mumbai- 400083, Maharashtra ("RTA") having web address https://web.linkintime.co.in/ at Email: rnt.helpdesk@linkintime.co.in with a copy marked to
- the Company at Nidhi.Sinha@in.ab-inbev.com. In case of any query and/ or grievance regarding e-voting or any technical assistance or support for VC/ OAVM participation, Members may contact NSDL at toll free no.: 1800-222-990 or write to them at evoting@nsdl.co.in and Members may also contact Mr. Anubhav Saxena, Assistant Manager, NSDL, 4th Floor, 'A' Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai-400013 at 022-24994545 or write to him at evoting@nsdl.co.in, for any further clarifications.

For Anheuser Busch Inbev India Limited

Mahesh Kumar Mittal Whole Time Director

November 3, 2021 Bengaluru, India

### AUTHORISED OFFICER, Dated: 04.11.2021 Place : New Delhi INTEC CAPITAL LTD.

# CAPLIN POINT LABORATORIES LIMITED

CIN - L24231TN1990PLC019053

Registered office: 3rd Floor, "Ashvich Towers", No.3, Developed Plots Industrial Estates, Perungudi, Chennai 600 096. Phone Nos.044-2496 8000, Fax No.044-28154952. Website - www.caplinpoint.net, email ID-info@caplinpoint.net

### EXTRACT OF STATEMENT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER & SIX MONTHS ENDED 30th SEPTEMBER 2021

Consolidated Three Months ended Half Year ended Year ended SI. 30.09.2021 30.06.2021 30.09.2020 30.09.2021 30.09.2020 31.03.2021 **Particulars** No. (1) (2)(3) (4) (5)(6) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Audited) Revenue from Operations 303.53 300.44 508.19 268.12 603.97 1,061.29 Net Profit / (Loss) for the period (beforeTax, Exceptional and/or Extraordinary items) 313.62 97.73 89.52 79.83 187.25 148.44 Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) 313.62 97.73 89.52 79.83 187.25 148.44 Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) 76.82 71.53 62.83 148.35 117.37 251.44 Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive 111.35 244.28 Income (after tax)] 76.07 76.47 56.82 152.54 **Equity Share Capital** 15.13 15.13 15.13 15.13 15.13 15.13 Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the 1,170.70 previous year Earnings Per Share (of Rs. 2/- each) (for continuing and discontinued operations) (Not Annualised) 1. Basic : (in Rupees) 9.91 7.5219.28 14.73 32.03 9.37 2. Diluted: (in Rupees) 31.71 9.86 9.25 7.46 19.11 14.62

### Note:

1. Key numbers of Standalone Results are as under:

(Rs. in Crs)

	Thre	Three Months ended			Half Year ended		
5	30.09.2021	30.06.2021	30.09.2020	30.09.2021	30.09.2020	(6)	
Particulars	(1)	(2)		(4)			
	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)		
Revenue from Operations	160.40	127.50	116.92	287.90	236.64	482.68	
Profit Before Tax	83.49	69.41	53.99	152.89	109.99	209.94	
Profit After Tax	65.16	54.55	41.26	119.70	83.26	156.23	

- 2. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results are available on the website of stock exchanges viz., BSE Limited (www.bseindia.com), National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com) and on the Company's website (www.caplinpoint.net).
- 3. The Unaudited Standalone and Consolidated financial results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at their respective meetings held on 2nd November, 2021

For Caplin Point Laboratories Limited Dr Sridhar Ganesan Managing Director Innovative Tech Pack Limited CIN: L74999HR1989PLC032412

Registered Office: Plot No. - 51, Roz Ka Meo Industrial Area, Sohna, Distt. Gurugram 122103 (Haryana) Website: www.itplgroup.com, Email.: grievence@itplgroup.com Tele. No.: 0120-7195236-239,

Pursuant to Regulation 29 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements Regulations, 2015, please be informed that Meeting of Board of Director of the Company will be held at 803-805, 8th Floor, Tower-2, Assotech Business Cresterra, Plot No. 22, Sector 135, Noida-201301 on Saturday, the 13th day of November, 2021 inter-alia, to consider and approve the following: To consider and approve the Un-audited

- Financial Results along with Statement of Assets and Liabilities and Cash Flow Statement of the Company for the quarter and half year ended on 30th September To consider and take note of Limited review report of Statutory Auditor on Un-audited Financial Results of the Company for the
- quarter and half year ended on 30th September, 2021. To consider and approve any other agenda

item as place on Board. Pursuant to SEBI (Prohibition of Insider Frading) Regulations, 2015 and as per the BSE circular LIST/COMP/O1/2019-20 dated April 2, 2019, the Trading Window for the securities of the Company has already been closed from October 1, 2021 till 48 hour after the declaration of un-audited Financial

Ketineni Satish Rao Place: Noida Managing Director Dated: 03.11.2021 DIN:02435513

For Innovative Tech Pack Limited

#### **AVON MERCANTILE LTD** CIN: L17118UP1985PLC026582

Regd. Office: S Global Knowledge Park, Noida, UP-201301 Website: http://www.avonmercantile.co.in/

#### NOTICE With reference Regulation 47(1) (a) read

audited financial results for the quarter ended on 30<sup>th</sup> September, 2021; to shift registered office of the Company

once approved by the Board, shall be available on the website of the Company www.cse-india.com/.

### 19A & 19B, Sector-125, Gautam Buddha Nagar,

with Regulation 29 of Securities Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on, **Friday, the** 12<sup>th</sup> November, 2021 at 4:30 P.M. at Conference Room (Upper Basement), Smart Bharat Mall. I-2. Sector-25A, Noida. Uttar Pradesh-201301: to consider and take on record the un-

to consider the appointment of the Additional Director (Executive Director) of the Company, subject to the approval of The un-audited results of the Company,

viz. http://www.avonmercantile.co.in/ and on the website of the stock exchanges viz. https://www.bseindia.com/ and https:/ For Avon Mercantile Ltd

Disha Soni **Company Secretary** Date: 04.11.2021 & Compliance Officer M. No.: A42944 Place : Noida

Form No. URC-2 Advertisement giving notice about

registration under Part-1 of chapter XXI

of the Act

(Pursuant to section 374(b) of Companies

Act, 2013 and rule 4(1) of the companies

(Authorized to Register) Rules, 2014)

. Notice is hereby given that in pursuance of

sub-section (2) of section 366 of the

Companies Act, 2013, an application is

proposed to be made after fifteen days

hereof but before the expiry of thirty days

hereinafter to the Registrar of Companies,

NCT of Delhi & Haryana that M/s

LEADERS INC, a partnership firm, having

office at UGF-3, Plot No. 891, Nitikhand-1,

Indirapuram, Ghaziabad - 201014 may be

registered under Part I of Chapter XXI of

Companies Act, 2013 as a company limited

2. The principal objects of company are as

To engage in the business of IT, ITES, Audio Video solutions, software & networking &

doing all activities allied and incidental to the

Copy of the draft memorandum and articles

of association of the proposed company

may be inspected at the office at UGF-3, Plot

No. 891. Nitikhand-1, Indirapuram,

4. Notice is hereby given that any person objecting to this application may

communicate their objection in writing to the

Registrar at Central Registration Center

(CRC), Indian Institute of Corporate

Affairs (IICA), Plot No. 6,7,8 Sector 5, IMT

Manesar, District Gurgaon (Haryana), Pin

Code- 122050, within twenty-one days from the date of publication of this notice, with a

copy to the company at its registered office.

M/s. Leaders Inc, through its Partners:

Name(s) of Applicant

2.Mrs. Uma Verma

1.Mr. Sandeep Manocha &

by shares.

above objects.

Date: 04/11/2021

Ghaziabad - 201014.

#### BASANT INDIA LIMITED

Results for the quarter and half year ended on 30th September, 2021.

Date: 03.11.2021

Place: New Delhi

R.O. 912 Indra Prakash Building, 21 Barakhamba Road, New Delhi 110001 Email Id: basant.indiaa@gmail.com | Website: www.basantfinance.com Tel. No. 011-23716531 | CIN: L51909DL1985PLC021396

NOTICE Notice is hereby given that Pursuant to Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, meeting of the Board of Directors will be held on Saturday, 13th Day of November, 2021 at 3:30 P.M at the registered office of the Company situated at 912, Indra Prakash Building, 21 Barakhamba Road, New Delhi-110001, inter-alia, to consider and take on record Un-audited Financial

The intimation contained in this notice is also available on Company's website www.basantfinance.com and www.msei.in For Basant India Limited

Sd/-Sushil Aggarwal Managing Director

DIN: 00144736 **FORM No.5** THE DEBTS RECOVERY TRIBUNAL

600/1, University Road Near Hanuman Setu Mandir, Lucknow (Areas of Jurisdiction : Part of Uttar Pradesh) SUMMONS FOR FILING REPLY & APPEARANCE BY PUBLICATION

O.A. No. 270/2021 Dated: 01.11.2021

(Summons to defendant under Section 19(4), of the Recovery of debts due to Bank and Financial Institution Act, 1993 read with rules 12 and 13 of the Debts Recovery Tribunal Procedure Rules, 1993)

PUNJAB & SIND BANK ... APPLICANT Versus .....DEFENDANTS

HARIOM VERMA & ORS 1. SHRI HARI OM VERMA, adult, S/o Shri Ram Niwas Verma

R/o 87/301 Shalimar Garden Ext- 1 Shaibabad Ghaziabad 2. SMT. KUNTLESH, adult, W/o Shri Hari Om Verma R/o 87/301 Shalimar Garden Ext- 1"Shaibabad Ghaziabad 3. SHRI BENU PAROI, adult. S/o Shri Jaiday Chandra Paroi

R/o Flat No. H-2 Plot No. 214 Shalimar Garden First, Ghaziabad

DEFENDANTS In the above noted application, you are required to file reply/evidence in Paper Book form in two sets along with documents and affidavits (if any) personally or through your duly authorized agent or legal practitioner in this Tribunal, after serving copy of the same on the applicant or his counsel/duly authorized agent after publication of the summons and thereafter to appear before the Tribunal on 22.12.2021 at 10.30 A.M. failing which the application shall be heard and decided in

> Registrar Debts Recovery Tribunal, Lucknow

ART HOUSING FINANCE (INDIA) LIMITED ART (Formerly known as ART Affordable Housing Finance (India) Limited Regd. Office: 107, First Floor, Best Sky Tower, Netaji Subhash Place, Pitampura, New Delhi-110034 Branch Office: 49, Udyog Vihar Phase 4, Gurugram, Haryana 122015

> APPENDIX-IV {See rule 8(1)} POSSESSION NOTICE

(For Immovable Property)

The undersigned being the Authorized Officer of ART HOUSING FINANCE (INDIA) LIMITED [CIN NO. U65999DL2013PLC255432] under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, issued a Demand Notice dated 06.04.2021 for Loan Account No. LNFBD06918-190006390 calling upon the borrower(s) RAM KISHAN & REKHA to repay the amount mentioned in the notice being Rs.9,51,619/- (Rupees Nine Lakh Fifty One Thousand Six Hundred Nineteen Only) as on 25.03.2021 and interest thereon within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower(s) and the

with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on 02.11.2021 The borrower in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the ART Housing Finance (India) Limited for an amount of Rs.9,51,619/- (Rupees Nine Lakh Fifty One Thousand Six Hundred Nineteen Only) as on 25.03.2021 and interest thereon.

public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein

glow in exercise of powers conferred on him under Sub-Section (4) of Section 13 of the Act read

The borrower's attention is invited to provisions of Sub-Section (8) of Section 13 of the Act in respect of time available, to redeem the Secured Asset. DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY

PROPERTY BEING PLOT NO.9 AREA MEASURING 100 SQ.YDS COMPRISED IN KHASRA NO.11/13 SITUATED AT MAUJA NANGLA GUJRAN, TEHSIL BADKHAL DISTRICT FARIDABAD HARYANA, WHICH IS BOUNDED AS UNDER: WEST : 15FT WIDE ROAD PROPERTY

: PLOT NO.10 SOUTH : PLOT NO.8 DATE : 02.11.2021 AUTHORISED OFFICER ART HOUSING FINANCE (INDIA) LIMITED PLACE: FARIDABAD

#### xôx Karnataka Bank Ltd. Your Family Bank, Across India.

Head Office: Mangaluru - 575 002 CIN: L85110KA1924PLC001128 ASSET RECOVERY MANAGEMENT BRANCH:

E-Mail: delhiarm@ktkbank.com

8-B, First Floor, Rajendra Park, Pusa Road, New Delhi-110060 IMMOVABLE PROPERTY

Phone: 011-40591567 Ext.240 Mob: 9319891680 E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 read with proviso to rule 8(6) of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002. Notice is hereby given to public in general and in particular to Borrower (s) and Guarantor

 (s) that the below described immovable property mortgaged/charged to the secured Creditor, the Symbolic Possession of which has been taken by the Authorised Officer of Karnataka Bank Ltd, the Secured Creditor on 21.08.2019, will be sold on "As is Where is", "As is What is" and "Whatever there is" basis on 08.12.2021, for recovery of Rs.1,07,90,434.26 [Rupees One Crore Seven Lakhs Ninety Thousand Four Hundred Thirty Four and Twenty Six Paisa Only) under Overdraft A/c No.5617000100001701 along with future interest from 01.09.2020, plus costs, due to the Karnataka Bank Ltd, Ashok Vihar Branch, A- 1, Ashok Vihar, Phase II, New Delhi- 110052, the Secured creditor from (1) M/s S K Trading, Rep by its partners (i) Mrs. Kanchan Khanna (ii) Mr. Rajat Khanna, S-6 A, Panday Nagar, New Delhi-110092 (2) Mrs. Kanchan Khanna W/o. Mr. Sunil Khanna (3) Mr. Rajat Khanna S/o. Mr. Sunil Khanna (4) Mr. Sunil Kumar S/o. Rohan Khanna (5) Mr. Roshan Lai Khanna S/o. Chandi Ram Khanna, Ali 2,3,4 & 5 are residing at: F-80, Bali Nagar, Block-F, Delhi-110015, being borrowers/guarantors/co-

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY: All that part and parcel of residential property with land measuring 78 sq. yrd bearing

No.S-6, out of Khasra No.27/2, along with two storied house built thereon measuring situated at Block-S, South Pandav Nagar, Village-Samaspur Jagir, Delhi-110092, belonging to Mr. Roshan Lal Khanna Boundaries: East: Others Property, West: 24ft wide road, North: Property No.S-5 South: Property No.S-6 Reserve Price/Upset Price below which the property may not be sold: Rs.1,25,94,000.00 (Rupees One Crore Twenty Five Lakhs Ninety Four Thousand

Earnest money to be deposited/tendered: Rs.12,59,400.00 (Rupees Twelve Lakhs Fifty Nine Thousand Four Hundred Only)

(The borrower's / mortgagor's attention is invited to the provisions of Sub-section (8) of Section 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured asset).

Interest Enforcement Rules-2002 to the Borrower/Guarantors) For detailed terms and conditions of sale, please refer to link in Karnataka Bank's Website i.e., www.karnatakabank.com under the head "mortgaged assets for sale". The E-auction will be conducted through portal https://bankauctions.in/ on 08.12.2021 from 11:30 A.M to 12:30 P.M with unlimited extension of 5 minutes. The intending bidder is required to register their name at https://bankauctions.in/ and get the user Id and password free of cost and get online training on E-auction (tentatively on 07/12/2021) from M/s.4closure, 605A, 6th Floor, Maitrivanam, Ameerpet,

Hyderabad- 500038, contact Mr. Vinay Sharma, mobile 8142000809, E-mail:

Place: Delhi Date: 02.11.2021

Chief Manager & Authorised Officer Indian Bank

इंडियन बैंक 🕰 इलाहाबाद ALLAHABAD

vinay@bankauctions.in and info@bankauctions.in.

(Under Section 13(4) of Securitization Act, 2002 read with rule 8 of Security Interest (Enforcement)

Rule 2002 for immoveable property Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of Indian Bank, under the Securitization & Reconstruction of

Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (herein after referred as "said Act") and in exercise of the power conferred under section 13(2) read with rule 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, (herein after referred as "said rules"), issued a demand notice dated 05.07.20212 calling upon the borrowers/Guarantores:-Borrower: Mr. Gurmeet Kaur & Mr. Lalit Arora - 302, Citizen Complex, 1/28 Mall Road Tilak Nagar, New Delhi-

to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 33,44,917/- (Rupees Thirty Three Lakhs Forty Four Thousand Nine Hundred Seventeen Only) due and outstanding as on 05.07.2021 along with further interest, cost, expenses & other charges thereon within 60 days from the date of receipt of the said notice due in the Loan Account No. 6547221356 availed Aero Marine Cargo Agencies Pvt Ltd (Directors Mr. Gurmeet Kaur & Mr. Lalit Arora), as

Facility	Limit	Balance Outstanding as on 05.07.2021			
occ	Rs. 30,00,000/-	Rs. 33,44,917/-			

specified in the the public in power confer October of th The borrowers/ guarantors/mortgagors in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the

property mentioned here under and any dealing with the said property will be subject to the charge of the Indian Bank,

Karol Bagh branch, for loan amount of Rs. 33,44,917/- (Rupees Thirty Three Lakhs Forty Four Thousand Nine

No. 35/15, situated in the area of village khayala, colony known as Vishnu garden, New Delhi along with proportionate land rights underneath.

Place : Delhi

(This Notice shall also serve as Notice under Sub Rule (6) of Rule (8) of Security

For Karnataka Bank Ltd

**BRANCH: KAROL BAGH POSSESSION NOTICE** 

Guarantor / Mortgagor : Harinder Singh S/o Sh. Darshan Singh Address : WZ-114, Plot No. 139, Vishnu Garden West Delhi 110018

ers/ guaramors/mongagors	nave railed to discharge his / their liability/ to repay the amount within the pend
the aforesaid notice and the	erefore this notice is hereby given to the borrowers/ guarantors/ mortgagors an
general that the undersign	ed has taken possession of the property described herein below in exercise of
erred on him/her under sec	tion 13(4) of the said Act read with rule 8 of the said rules on this 29th Day of
the year 2021.	A 1940 PM PM TOTO THE OPENING OF THE POST OF COURSE AND

Hundred Seventeen Only) due and outstanding as on 05.07.2021 along with further interest, costs, expenses & other charges thereon. DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE /MOVEBLE PROPERTY All that part and parcel of the property Situated at :-

## c) Entire Ground Floor, Property No. WZ-114 (Old Plot No. 139) land area measuring 75 sq yards out of khasra

Bunded by: North: Road 15ft

East: Plot No. 138

Date: 04.11.2021

South: Gali 10 ft West: Portion of above plot

New Delhi

Authorized Officer, Indian Bank

Date: November 2, 2021

Place: Chennai

शेयर बाजार के साथ एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि 30 सितंबर, 2021 को समाप्त तिमाही और छमाही के लिए कंपनी के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर परस्पर विचार और अनुमोदन के लिए कंपनी के निदेशकों के बोर्ड की बैठक 67 पार्क स्ट्रीट, कोलकाता- 700016 में शुक्रवार, 12 नवंबर, 2021 को अपराह्न 03.30 बजे आयोजित की जाएगी। कथित जानकारी कंपनी की वेबसाईर www.globalbol.com और शेयर बाजार की वेबसाईट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।

बोर्ड के आदेशानुसा ह./- एस. के. शर्मा स्थानः कोलकाता दिनांक: 03.11.2021

कोकिंग कोल की ई-नीलामी

दिनांक 18.11.2021 की ई-नीलामी सं

20644, नानी चिरई, गुजरात में तिरुपति

फुएल्स प्राइवेट लि. की प्लांट साइट में पड़े

हुए 27445.426 एमटी (लगभग) कोकिंग

कोल की ब्रिक्री हेत्। अधिक जानकारी एवं

पंजीकरण के लिए www.mstcecommerce.

com या www.mstcindia.co.in देखे। संपक

विवरणः इमेलः marutsaha@mstcindia.co.in

नियमित रूप से उपर्युक्त वेबसाइट देखते हए

इसके अलावा

CAPITAL TRADE LINKS LIMITED

Registered Office: B-4, LGF, Ashoka

Niketan, Delhi - 110092

CIN: L51909DL1984PLC019622

E-mail: info@capitaltrade.in

Website: www.capitaltrade.in

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with

Regulation 47 of the SEBI (Listing

Obligations and Disclosure Requirements)

Regulations, 2015, NOTICE is hereby

given that 4th meeting of the Board of

Directors of the Company for the Financial

year 2021-22 is scheduled to be held on

Thursday, 11th November, 2021 at 4:00

p.m., inter-alia, to consider, approve Un-

audited Financial Results for the quarter

and half yearly ended September 30, 2021.

The said information is also available on

website of the Company

(www.capitaltrade.in), BSE Ltd.

Date: 03.11.2021 (Whole Time Director)

JAUSS POLYMERS LIMITED

CIN: L74899HR1987PLC066065

Registered Office: Plot No. - 51, Roz.

Ka Meo Industrial Area, Sohna, Distt.

Gurugram 122103 (Haryana)

Website: www.jausspolymers.com,

Email.: response@jausspolymers.com

Tele. No.: 0120-7195236-239,

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 of the SEBI (Listing

Obligations and Disclosure Requirements)

Regulations, 2015, please be informed that

Meeting of Board of Director of the Company

will be held at 801-802, 8th Floor, Tower-2,

Assotech Business Cresterra, Plot No. 22,

Sector 135, Noida-201301 on Saturday, the

13th day of November, 2021 inter-alia, to

To consider and approve the standalone

and consolidated Un-audited Financial

Results along with Statement of Assets and

Liabilities and Cash Flow Statement of the

Company for the quarter and half year

To consider and take note of Limited review

report of Statutory Auditor on Un-audited

Financial Results of the Company for the

quarter and half year ended on 30th

To consider and approve any other agenda

Pursuant to SEBI (Prohibition of Insider

Trading) Regulations, 2015 and as per the

BSE circular LIST/COMP/O1/2019-20 dated

April 2, 2019, the Trading Window for the

securities of the Company has already been

closed from October 1, 2021 till 48 hour after

the declaration of un-audited Financial

ended on 30th September, 2021.

September, 2021.

item as place on Board.

consider and approve the following:

By the order of Board

Vinay Kumar Chawla

For Capital Trade Links Limited

(www.bseindia.com).

Place: Delhi

मोहम्मद युसुफ पुत्र मोहम्मद. यासीन खसरा संख्या ७४एम और ७५एम.

का भाग मीहल्ला नवादा शेखान (गुलज़ार नगर) सतीपुर रोड, बरेली

एम एस टी सी लिमिटेड

पर्नाट में, मील्फ-18/2, म्ट्रीट में, 175, तुम्रान एरिया 1सी, न्यू टाउन, मोलकात:-700156

#### **GLOBUS SPIRITS LIMITED** Read. Office:- F-0. Ground Floor. The Mira Corporate Suites, Plot No.1&2, Ishwar Nagar, Mathura Road, New Delhi-110065 | Ph:011-66424600, Fax:011-66424629, E-mail:corporateoffice@globusgroup.in, Web:www.globusspirits.com

NOTICE In terms of the Clause 29 (1) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given that the next meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Friday, the 12th November, 2021, inter-alia, to consider and take on record the Un-audited financial results of the Company for the 2<sup>nd</sup> Quarter and half year ended on 30<sup>th</sup> September, 2021. The said notice is also available on the company's website www.globusspirits.com

Dated: 02<sup>nd</sup> November 2021

र्वक आफ बडीदा

Bank of Baroda

(उत्तरी दिल्ली) बैंक ऑफ बड़ौदा बिल्डि

सरी मंजिल, 16 संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001, भा

फोनः +91-11-23441370 / 1366, 9798965966

र्ड-मेलः recovery.northdelhi@bankofbaroda.com

शुद्धिपत्र

दिनांक 03.11.2021 को इस समाचार पत्र

में छपे **ई-नीलामी बिक्री सूचना** विज्ञापन

के संदर्भ में आम जनता को सचित किया

जाता है कि क्र.सं. 8 खाते का नामः

पंडित सिक्योरिटी सर्विसेज के कब्जे

दिनांकः 03.11.2021 प्राधिकृत अधिकारी

and also available on BSE & NSE website.

For Globus Spirits Limited Santosh Kumar Pattanayak (Company Secretary)

<u>"IMPORTANT"</u>

Whilst care is taken prior to

acceptance of advertising

copy, it is not possible to verify

its contents. The Indian

Express (P) Limited cannot be

held responsible for such

contents, nor for any loss or

damage incurred as a result of

transactions with companies,

associations or individuals

advertising in its newspapers

or Publications. We therefore

recommend that readers

make necessary inquiries

before sending any monies or

entering into any agreements

with advertisers or otherwise

acting on an advertisement in

any manner whatsoever.

बैंक ऑफ महाराष्ट्र Bank of Maharashtra PURSUE THE STREETS STATE एक परिवार एक बैंक सार्वजनिक सूचना

केनरा बैंक Canara Bank 📣

Tirrigias Syndicate

शीतल गंज, शिव मंदिर के पास, मामन रोड़, जिला पुत्र नन्हें की सम्पत्ति।

शाखा का नाम एवं

ऋणी / गारन्टर के नाम

गारण्टरः श्री मीहम्म्द फाहद पुत्र जफर याब खान,

गांव हाजीपुर बटौला, पोस्ट खेड़ा, जिला बुलन्दशहर

बुलन्दशहर, उ०प्र० २०३००१, फोन ८०७७२७ इ.स.

गारण्टरः श्रीमती कमलेश पत्नि सुखराम देवीपुरा, प्रथ

पार्ग बरान, जिला बुलन्दशहर उ०प्र० 203001, फोन

ऋणीः श्रीमती माया देवी पत्नि वीर पाल सिंह,

गारण्टर: श्री मही पाल सिंह पुत्र बीर पाल सिंह

789 / 11, राधा नगर बुलंदशहर, उ०प्र० 203001

789/11, राधा नगर बुलंदशहर, उ०प्र० 203001, घर।

शिकारपुर रोड़, गांव और पोस्ट रामपुर कॉलोनी उर्फ शिकारपुर रोड़।

मिरजापुर, जिला बुलंदशहर, उ०प्र० 203001, फोन

बुलंदशहर उ०प्र० 203001 फोन 97599298909.

सह उधारकर्ताः विनीता शर्मा पत्नि राजेश शर्मा ।

गारण्टरः चारू शर्मा पुत्र सतीश शर्मा, मकान नं0. 1, मोहल्ला शिवपुरी रेलर्वे रोड़, जिला बुलंदशहर, उ०प्र0

चंदा कैटर्स पुरी, रेलवे रोड़, जिला बुलन्दशहर, रास्ता।

शाखाः रेलवे रोड, बुलन्दशहर (18651)

शाखाः रेलवे रोड, बुलन्दशहर (18651).

शाखाः रेलवे रोड, बुलन्दशहर (18651)

च0प्र0 203001, फोन 9997702254.

शाखाः रेलवे रोड, बुलन्दशहर (18651).

शाखाः रेलवे रोड, बुलन्दशहर (18651).

203001, फोन 8630473200. शाखाः रेलवे रोड, बुलन्दशहर (18651).

उ०प्र० 203001, फोन 9759298909. शाखाः रेलवे रोड, बुलन्दशहर (18651)

बुलंदशहर उ०प्र० 203001, फोन 9837385995.

बुलंदशहर उ०प्र० 203001, फोन 8077279758. शाखाः रेलवे रोव, बुलन्दशहर (18651).

गारण्टर: श्रीमती माया देवी पत्नि बिशन खरूप वर्मा,

149, शीतल गैंग, शिव मंदिर के पास, मामन रोड़,

9719307860. (2). श्रीमती शबनम पत्नि तारीख पता

आनद कुमार, 40 फुटा रोड़, जिला बुलंदशहर, उ०प्र0

203001 फोन 9634099653

क्षेत्रीय कार्यालयः हापुड ।

शाखाः रेलवे रोड, बुलन्दशहर (18651).

रोड, जिला बुलंदशहर उ०प्र० 203001, फोन का प्लॉट।

उ०प्र० 203001, फोन 7017687310.

203001, फोन 7895892160.

9634099653.

9834099653.

फोन 9411477776.

फोन 9941477778.

फोन 9941477778.

6395399973.

शाखाः रेलवे रोड, बुलन्दशहर (18651)

फोन 9897272649.

जैसा कि प्रतिभृतिकरण व वित्तीय आरितयों का पुननिर्माण और प्रतिभृति हित का प्रवर्तन अधिनियम प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पढ़ते हुए अनुब्छेद-13 (12) के

अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केनरा बैंक के प्राधिकत अधिकारी ने सम्बन्धित ऋणी के नाम के सामने दर्शाये गये खाते में उनके नाम के सामने दी गई तारीखों पर नोटिस की

तारीख / उक्त नोटिस की तारीख से 60 दिनों में बकाया राशि अदा करने के लिए मांग नोटिस जारी किया गया था। ऋणियों / गारन्टरों द्वारा राशि अदा करने में असफल रहने पर ऋणी और

जन सामान्य को नोटिस दिया जाता है कि खाते के सामने दी गई तारीख को उक्त नियमों के नियम-8 के साथ पढ़ते हुए उक्त अधिनियम की घारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का

प्रयोग करते हुए नीचे दी गई सम्पत्ति का कब्जा नीचे लिखी तिथि को ले लिया गया है। उधारकर्ता(ओं) का ध्यान सुरक्षित परिसंपत्तियों के एवज में उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा

13 (8) के प्रावधानों के लिए आमंत्रित किया है। ऋणियों / गारन्टरों को विशेष रूप से एवं जन सामान्य रूप से यह चेतावनी दी जाती है कि वे उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी प्रकार का

लेन-देन न करें। इन सम्पत्तियों में किसी प्रकार का लेन-देन केनरा बैंक, संबंधित शाखाओं को देय राशि एवं उस पर अर्जित व्याज के वार्ज के पूर्ण भूगतान के पश्चात ही किया जा सकता है।

बंधक सम्पत्ति का विवरण

एवं सम्पत्ति स्वामी का नाम

वौहददी: पूर्व: हब्बू का घर, पश्चिम: मकान नं0. 891 का भाग

उत्तरः रास्ता 15 फिट और दक्षिणः मकान नं0. 891 का भाग ।

बुलन्दशहर, चौहददी: पूर्व: नूर क्रैशी का घर, पश्चिम: 8 फिट

बुलन्दशहर, चौहददी: पूर्व: गोपी की सम्पत्ति, पश्चिम: भूमि

इमोवेबल सम्पत्ति आवासीय जिसकी माप 125 स्क्वेयर यार्जस.

पूर्व: श्रीमती रीता देवी का घर, पश्चिम: कान्ति देवी का घर

र्व: 14 फिट चौडा रोड, पश्चिम: नेत्र पाल सिंह का प्लॉट, उत्तर

नगर, बुलंदशहर, जिला बुलन्दशहर भुड़, चीहददी: पूर्व: रास्ता

चौहददी: पूर्व: प्लॉट नं0 डी-150, पश्चिम: प्लॉट नं0 डी-148

पूर्वः विक्रेता का प्लॉट, पश्चिमः श्रीमती विनीता शर्मा का घर

परगना बरान नगर, जिला बुलन्दशहर, चौहददीः पूर्वः दामोदर

स्वरूप का घर पश्चिमः रामप्रकाश का घर उत्तरः अन्य

लन्दशहर, चौहददी: पूर्व: आराजी विक्रेता सरताज का प्लॉट

आराजी और दक्षिणः सरकारी खडंजा।

उत्तरः प्लॉट नं0 डी-158 और दक्षिणः 9 मीटर चौड़ा रोड़।

ईश्वर और अन्य का प्लॉट और दक्षिण: नूर मोहम्मद का घर।

ऋणीः श्री अब्दुल वाहिद पुत्र सलीमुददीन, पताः 331, इमोवेबल सम्पत्ति आवासीय जिसकी माप 9.10 रक्वेयर मीटर

ककन सराय, जिला बुलंदशहर, उ०प्र० 203001, मौहलला कोथियात परगना बरान नगर, जिला बुलन्दशहर

ऋणीः श्री इकबाल पत्र रफिक अहमद, पताः मकान हमोवेवल सम्पत्ति आवासीय जिसकी माप 30.67 स्ववेयर

नं0. 99ए, फराहशान जिला बुलन्दशहर उ०प्र० भीटर, मीहलला फराहशान, परगना बरान नगर, जिल

गारण्टरः श्री राकेश वर्मा पुत्र बिशन स्वरूप, 101 सी, चीड़ा शस्ता, उत्तरः नूरे क्रैशी का घर और दक्षिणः इकबाल

ऋणीः श्री जीतेश कमार पत्र सरजीत सिंह, पता गांव हमोवेबल सम्पत्ति आवासीय जिसकी माप 52.64 स्वयेयर

धमेरा किरत पार्ग बरान, जिला बुलन्दशहर ७०५० मीटर, नया गांव धमेडा रोड, परगना बरान नगर, जिल

सह उचारकर्ताः श्रीमती शशि बाला पत्नि जीतेश नगर पालिका परिषद और पाल मार्केट, उत्तरः सम्पत्ति

789/11, **राधा नगर बुलंदशहर, उ०प्र० 203001,** राधा नगर, परमना बरान नगर, जिला बुलन्दशहर, चौहददी

सह उधारकर्ताः श्री वीरपाल सिंह पुत्र भगवती प्रसाद, उत्तरः रास्ता 3.65 मीटर चौड़ा रोड़ और दक्षिणः हरिपाल क

ऋणीः श्री मीहम्मद आतिक पुत्र दोस्त मोहम्मद, इमोवेबल सम्पत्ति आवासीय जिसकी माप 62.07 स्क्वेयर मीटर,

निवासी अंसारीयन, तहसील और जिला बलंदशहर, नई आवादी पोस्ट ऑफिस स्ट्रीट भूड, जिला बुलन्दशहर, चौहददी

ऋणीः मैं0 ज्योति स्पेयर प्रो0. जितेन्द्र सिंह, 230, इमोवेबल सम्पत्ति ईमारत और दुकान, खसरा नं0. 200क और

शिकारपुर रोड़, गांव और पोस्ट रामपुर कॉलोनी उर्फ 201क, पुराना नं0. 92/1 और 93/1 जिसकी माप 167.44 मिरजापुर, जिला बुलंदशहर, ७०प्र० २०३००१, फोन स्ववंयर मीटर, रामपुर कॉलोनी उर्फ मिरजापुर परगना वरान

गारण्टर श्री नत्थी सिंह पुत्र खेमसिंह, 230, पश्चिम: रास्ता, उत्तर: वीरपाल सिंह का प्लॉट और दक्षिण

ऋणीः श्री राजेश शर्मा पुत्र ज्ञान चन्द्र शर्मा, मकान इमोवेबल सम्पत्ति आवासीय प्लॉट नं0. डी-149, जिसकी माप

नं0. 432, शान्ति निकतन नुमाईश रोड़, जिला 264 स्ववेयर मीटर, यमुना पुरम कॉलोनी, जिला बुलन्दशहर

ऋणीः श्री राजेश शर्मा पुत्र ज्ञान चन्द्र शर्मा, मकान इमोवेबल सम्पत्ति आवासीय प्लॉट जिसकी माप 50.04 स्ववंयर

नं0. 432, खालसा स्कूल के पास, शान्ति निकेतन यार्डस या 41.87 रवचेयर मीटर, खेत नं0. 124/1 का भाग नुमाईश मार्ग, जिला बुलेदशहर उ०प्र० 203001 फोन मोहल्ला भृह, परगना बरान नगर, जिला बुलन्दशहर, चौहददी:

गारण्टरः श्री हिमांशू गिरी पुत्र महेन्द्र गिरी के /ऑफ उत्तरः श्रीमती शकुन्तला का घर और दक्षिणः 18 फिट चौड़ा

ऋणीः मै0 शुभलक्ष्मी ओरनामेंट प्रो0. राकेश वर्मा, इमोवेबल सम्पत्ति आवासीय जिसकी माप 87.50 स्ववेयर

कुमार मार्केट सुनारों वाली गली, होली चौक, यार्डस मंसीपिल नं०. 169, वार्ड नं०. 28, मौहल्ला शीतल गंज

ऋणीः श्री तारीख पत्र शौकीन पताः आनद विहार. 40 इमोवेबल सम्पत्ति आवासीय जिसकी माप 70 स्ववेयर यार्डस

फुटा रोड़, जिला बुलंदशहर, उ०प्र० 203001, फोन गांव हीरा पुर अंदर सीमा, परगना बरान नगर, जिल

गारण्टरः (1). श्री अब्दुल सलाम पुत्र अब्दुल हाफिज, पश्चिम: 9 फिट 6 इंच चौड़ा रास्ता, उत्तरः आराजी विक्रेता

पता: 105/7, ताज मस्जिद वाली गली 2, अनूपशहर भूल्लन खान का प्लॉट और दक्षिण: आराजी विक्रेता भूरा मिस्त्री

कुमार गांव धमेडा कीरत बुलन्दशहर 203001, फोन वारिसान गोकल और दक्षिण: सडक धमेडा रोड।

आधिकारिक उद्देश्य के लिए मासिक और दैनिक आधार पर कार किराए पर लेने के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा दिल्ली/एनसीआर क्षेत्र में अपने अधिकारियों व लिए मासिक अनुबंध के आधार पर 2 कारें और दिन-प्रतिदिन वाहनों को अनुबंध के आधार पर किराए पर लेने के लिए प्रस्ताव आमंत्रित है। इच्छ्क एजेंसियों से अनुरोध है कि वह बैंक की वेबसाइट

www.bankofmaharashtra.in पर विवरण देखें और अपना सीलबंद प्रस्ताव 24.11.2021 तक जमा करें। विनांक : 03.11,2021 उप, आंचलिक प्रबंधक, विल्ली अंचल PUSHPSONS INDUSTRIES LIMITED

Regd. Office: B-40, Okhla Industrial Area. Phase -I, New Delhi- 110020 CIN: L74899DL1994PLC059950 Tel: +91-11-41610121 Fax: +91-11-41058461 Email id: info@pushpsons.com Website: www.pushpsons.com

NOTICE Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, notice is hereby given that a meeting of Board of Directors is scheduled to be held on Saturday, November 13, 2021 at New Delhi, inter-alia to consider and approve the un-audited financial results (Standalone) of the Company for the quarter/half year ended September 30, 2021 The said notice may be accessed on the Company's website a http://www.pushpsons.com also on the website of the stock

For Pushpsons Industries Limited

Pankaj Jain Place: New Delhi Director Date: November 03, 2021 DIN: 00001923

exchange at http://www.bseindia.com.

एवं manidipadas@mstcindia.co.in; मोबाइल: की स्थिति गलती से साकेंतिक प्रकाशित 8420178283 एवं 9869037055, ई-नीलामी हो गया है। कृपया कब्जे की स्थिति को से संबंधित कोई संशोधनी/संयोजनी/ परिवर्तन/समय भौतिक पढा जाए। बाकी नियम व शर्ते विस्तार/स्पष्टीकरण रहने पर. केवल एमएसटीसी पर्वानुसार रहेंगी। की वेबसाइट में प्रकाशित किया जाएगा। बोलीदाता

स्थानः नई दिल्ली बैंक ऑफ बडौदा नवीनतम जानकारी से अवगत रहें। केनरा बैंक Canara Bank

📰 सिडिकंट Syndicate

अंचल कार्यालयः विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010 ई-नीलामी बिक्री सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकण एवं पूर्नगठन तथा प्रतिभृतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 सहपठित सुरक्षित हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधान के अंतर्गत 15 दिन के नोटिस पर 'ई-नीलामी' द्वारा अचल सम्पत्तियों की बिकी सूचना

EMD प्राप्त होने की अंतिम तिथि 29.11.2021 सांय 5 बजें तक

नीलामी की तिथि व समयः 30.11.2021 पूर्वाहन 11-30 से अपराहन 12-30 बजे तक

ऋणी व जमानतकर्ता को विशेष रूप से व सर्वसाधारण को सामान्य रूप से सुचित किया जाता है कि निम्न वर्णित सुरक्षित ऋण प्रदाता बँक द्वारा बंधक 🗸 प्रभारित अचल सम्पत्ति का कैनरा बँक के प्राधिकत

लॉट सं.	ऋणी / गारन्टर / बंधककर्ता का नाम एवं पता	सम्पत्ति का विवरण	कुल देनदारिया धरोहर राशि का खाता विवरण	आरक्षित मूल्य (रु.) घरोहर राशि जमा (EMD)	कब्जे का प्रकार	व्यक्ति से सम्पर्क के लिए मोबाईल नं0
(1)	<ol> <li>मैसर्स वेलंडन बैटरी और इन्वर्टर (प्रो. श्री मुशफीक अहमद पुत्र मोहम्मद जुमेराती) गुड मैरिज हॉल के पास, मीहल्ला सूफी टोला, पुराना शहर, बरेली।</li> <li>श्री मुशफीक अहमद पुत्र श्री मो. जुमेराती, मकान नं. 489, मीहल्ला सूफी टोला, पुराना शहर, बरेली</li> </ol>	अहमद और श्री मोहम्मद आलम सभी पुत्र श्री मोहम्मद जुमेराती के नाम, क्षेत्रफल 6.92 वर्गमीटर,	+ व्याप्त गर्व अन्य सर्वे	₹ 1038000.00	सांकेतिक	प्रबंधक केनरा बैंक. ग्रीनपार्क बरेली शाखा फोन 0581-2520044, मो0-8173007812 मेल आईडी:
	<ol> <li>श्री अनीस अहमद पुत्र श्री मो. जुमेराती, मकान नं. 489, मीहल्ला सूफी टोला, पुराना शहर, बरेली</li> <li>श्री मो. आलम पुत्र श्री मो. जुमेराती, मकान नं. 489, मीहल्ला सूफी टोला, पुराना शहर बरेली</li> </ol>	सीमायें:- पूर्व :रास्ता, पश्चिम: अलाउद्दीन का मकान, उत्तर: सोएब अंसारी की दुकान, (दुकान सोएब जरी आर्ट), दक्षिण: अतहर अली का मकान	A/c No 8330296000002 IFSC Code: CNRB0008330			cb4880@canaraban k.com
(2)	<ol> <li>मैसर्स एस.बी.बी. कॉपॉरेशन (प्रो. श्रीमती राजरानी गुप्ता पत्नी श्री गोपाल गुप्ता) गांव अंधरपुरा राजी पारसपुर तहसील फरीदपुर, जिला बरेली</li> <li>श्रीमती राजरानी गुप्ता पत्नी श्री गोपाल गुप्ता मकान नं. 29, उत्कर्ष भाग-2, महानगर, बरेली</li> <li>श्री गोपाल गुप्ता पुत्र श्री छोट मकान नं. 29, उत्कर्ष भाग-2, महानगर, बरेली</li> </ol>	अंधरपुर, तहसील फरीदपुर जिला बरेली, संपत्ति श्रीमती राजरानी गुप्ता पत्नी श्री गोपाल गुप्ता के नाम, क्षेत्रफल 140. 00 बर्गमीटर, सीमार्थे:— पूर्व: गोपाल गुप्ता की एजी. ईक्यूपी	01.01.2018 से	रू 628000.00 रू 62800.00	सांकेतिक	प्रबंधक केनरा बैंक, ग्रीनपार्क बरेली शाखा फोन 0581-2520044, मो0-8173007812 मेल आईडी: cb4880@canaraban k.com
(3)	<ol> <li>मैसर्स बरेली सीमेंट ब्रिक्स उद्योग (प्रो. श्रीमती शवाना बेगम) ग्राम मोहनपुर, बरेली</li> <li>श्रीमती शवाना बेगम पत्नी मोहम्मद सलीम, 144, नकतिया मोहनपुर पीएसी—डीएसओं बरेली</li> </ol>	शवना बेगम पत्नी मो. सलीम के नाम, क्षेत्रफल 167.23		₹ 2609000.00	सांकेतिक	प्रबंधक केनरा बैंक, चीनपार्क बरेली शाखा फोन 0581-2520044, मो0-8173007812 मेल आईडी: cb4880@canaraban k.com
(4)	<ol> <li>मैसर्स सुपर प्रोविजनल स्टोर (प्रो. श्रीमती गुलशन फातमा)</li> <li>144, मोहनपुर (नकतिया) बरेली</li> <li>श्रीमती गुलशन फातमा पत्नी मो. मोहसिन मकान नं.1,</li> </ol>	छावनी, बरेली, बरेली, श्रीमती गुलशन फातमा पत्नी मोहम्मद	रू 1097533.00 + ब्याज एवं अन्य खर्चे	₹ 1138000.00	सांकेतिक	प्रबंधक केनरा बैंक. ग्रीनपार्क बरेली शाखा फोन 0581—2520044,
	मोहनपुर, नकतिया थाना छावनी बरेली, बरेली 3. मोहम्मद मोहसिन पुत्र मोहम्मद सलीम मकान नंबर 1, मोहनपुर, नकतिया थाना छावनी बरेली, बरेली	मुकेश का मकान, पश्चिमः श्री शफीक खान और अशफाक खान की संपत्ति, उत्तरः शरीफ, शफीक खान और अशफाक खान की संपत्ति, दक्षिणः रास्ता उसके बाद श्री सरजू की संपत्ति	01.06.2020 社 A/c No 8330296000002 IFSC Code: CNRB0008330	₹ 113800.00		मोo-8173007812 मेल आईढी: cb4880@canaraban k.com
(5)	<ol> <li>मोहम्मद यूसुफ पुत्र मोहम्मद यासीन मकान नं.—152, जगतपुर पुराना शहर वरेली</li> <li>श्री शान अख्तर पुत्र मो. यासीन खान मकान नं.—152, जगतपुर पुराना शहर वरेली</li> </ol>	75 एम का भाग सतीपर रोड मीहल्ला नवादा शेखान	+ ब्याज एवं अन्य खर्चे	₹ 1397000.00 ₹ 139700.00	सांकेतिक	प्रबंधक केनरा बैंक, नैनीताल रोड, बरेली शाखा मो0 9412247228,

बिकी के नियम व शर्तों की विस्तृत जानकारी कैनरा बैंक की वैबसाईट (www.canara bank.com) पर उपलब्ध है अथवा उपर्युक्त शाखा के द्वारा शाखा प्रबंधक से किसी भी कार्यालय दिवस में कार्यालय समय में सम्पर्क करें। कार्यालय समय के दौरान 22.11.2021 से 26.11.2021 तक उपरोक्त शाखा के अधिकृत अधिकारी के साथ पूर्व नियुक्ति के साथ संपत्ति का निरीक्षण किया जा सकता है

सुरज पाल का प्लॉट और उसके बाद बेनी राम का मकान,

पश्चिमः सुरज पाल का प्लॉट, उत्तरः डाल चंद और राम लाल

का प्लॉट, दक्षिण: रास्ता

.....Appellant(s)

The Jammu & Kashmir Bank Ltd.

VERSUS

M/s Bright India International & Ors.

1. M/s Bright India International B-1/545, Janakpur

2. Mrs. Raj Kumari Wife of Shri J.L. Gugnar

3. Shri Harish Chander Chugh Slo Shri Radhu Ram,

Directors, M/s Firneds Clearing Agency (P) Ltd.,

Shri S.P. Budhiraja Son of Shri C.L. Budhiraja.

Whereas the above-noted appellant has presented an

appeal under Section 96 CPC which was listed before

the Court on 23.04.2019 and the Court ordered

issuance of notice to you. And whereas it has been

proved to the satisfaction of the Court that you cannot

be served in the ordinary manner, Notice is hereby

issued that, if you wish to defend the above mentioned

appeal, you may cause an appearance to be entered on your behalf either personally or through an

advocate duly appointed by you for the purpose before

the Court of Worthy Registrar (Appellate) on

If no appearance is made on your behalf, by yourself,

your pleader or someone by law authorized to act for

you in the said appeal on the aforementioned date, no

further notice of the subsequent date of hearing of the

said appeal will be given and the same will be heard

Given under my hand and the seal of this Court on this

एवन मर्केन्टाईल लि.

CIN: L17118UP1985PLC026582

पंजी. कार्यालयः एस ग्लोबल नॉलेज पार्क,

19ए एवं 19बी, सेक्टर-125,

नोएडा, उ.प्र.-201301

| Website: http://www.avonmercantile.in/

भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सूचीयन दायित्व

तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2013 के विनियमन

29 के साथ पठित विनियमन 47 (1) (ए) के

अनुपालन में एतद द्वारा सुचित किया जाता है कि

कंपनी के निदेशक मंडल की एक बैठक शुक्रवार, 12

नवंबर, 2021 को 4.30 बजे अप. में कान्फ्रेंस रूम

(ऊपरी बेस्मेन्ट), स्मार्ट भारत माल, आई-2, सेक्टर-

25 ए. नोएडा, उत्तर प्रदेश–201301 में आयोजित की

जाएगी जिसमें 30 सितंबर 2021 को समाप्त तिमाही

तथा छमाही के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार

- उसी नगर की स्थानीय सीमाओं के भीतर कम्पनी के

पंजीकृत कार्यालय के स्थानांतरण पर विचार तथा

आरबीआई की स्वीकृति के अधीन कम्पनी के

अतिरिक्त निदेशक (कार्यकारी निदेशक) की नियक्ति

पर विचार, बोर्ड द्वारा एक बार स्वीकृत हो जाने के बाद

कम्पनी का अनंकेक्षित परिणाम कंपनी की वेबसाईट

अर्थात http://www.avonmercantile.in/ एव

स्टॉक एक्सचैंज की वेबसाईट अर्थात

कर अभिलेख में लिये जाएंगे।

ASSISTANT REGISTRAR (APP) (CIVIL)

FOR REGISTRAR GENERAL

and determined ex parte in your absence.

Directors, M/s Firneds Clearing Agency (P) Ltd.,

Notice to: Respondent No(s):

New Delhi Through its Partners.

E/1/17, Jhandewalan, New Delhi

E/1/17, Jhandewalan, New Delhi

14.12.2021 (actual) at 11:00 a.m.

21st day of October, 2021.

Resident of B-1/545, Janakpuri, Delhi

उपर्युक्त ई-नीलामी हेतु सेवा प्रदाताः मैसर्स कैनबैंक कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड, वेवसाईट www.ccsl.co.in , मोबाईल 9832952602 / 080- 23469665, ईमेल eauction@ccsl.co.in

लिये जाएंगे।

उपलब्ध होगा।

तिथि: 3.11.2021

स्थानः नोएडा

भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सूचीयन दायित्व

एवं उदघाटन अपेक्षा) विनियमन 2013 के विनियमन

29 के साथ पठित विनियमन 47(1)(ए) के अनुपालन

में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी के निदेशक

मंडल की एक बैठक शुक्रवार, 12 नवंबर, 2021 को

3.00 बजे अप. में कान्फ्रेंस रूम ऊपरी बेस्मेन्ट, स्मार्ट

भारत माल, आई-2, सेक्टर-25ए, नोएडा, उत्तर प्रदेश-

201301 में आयोजित की जाएगी जिसमें-एलओडीआर

विनियमनों के विनियमन 33 के अनुपालन में 30

सितम्बर, 2021 को समाप्त तिमाही तथा छमाही के

अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार कर अभिलेख गं

उसी नगर की स्थानीय सीमाओं के भीतर कम्पनी वे

पंजीकृत कार्यालय के स्थानांतरण पर विचार तथ

अनमोदन बोर्ड द्वारा एक बार स्वीकत हो जाने के बाद

के कम्पनी का अनंकेक्षित परिणाम कंपनी की वेबसाईट

अर्थात् www.iosystem.in एवं बीएसई की

वेबसाईट अर्थात् www.bseindia.com पर र्भ

आईओ सिस्टम लिमिटेड के लिए

अरुण सेट

DIN:00007895

निदेशक

दिनांक :- 03.11.2021

प्राधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक

A/c No 8330296000002

IFSC Code: CNRB0008330

आईओ सिस्टम लिमिटेड IN THE HIGH COURT OF DELHI AT NEW DELHI बैंक ऑफ़ बड़ोदा (Notice under Order V Rule 20 Code of Civil Procedure) CIN:L65921UP1987PLC008764 RFA 386/2007 पंजी. कार्यालय : ग्लोबल नॉलेज पार्क, Appeal against the Order dated 09.04.2007 Passed प्लॉट नं. 19ए एवं 19बी, सेक्टर-125, नोएडा, by Sh. Inder Jeet Singh, ADJ, Delhi In Civil Suit No.

उत्तर प्रदेश-201301 I DENA LINE ई-मेल : iosystemltd@gmail.com

9837988000,

आई ही:

nk.com

b18635@canaraba

क्षेत्रीय कार्यालय पश्चिमी दिल्ली, 12वाँ तल, 16 संसद मार्ग, नई दिल्ली डिनारिक डिनारिक डिनारिक डिनारिक आईडी : recovery.westdelhi@bankofbaroda.co.in, दूरभाष : 011-2344-1203/1207/1206/1216

चल आस्तियों/वाहनों की बिक्री हेतु ई-नीलामी की सार्वजनिक सूचना

कब्जा सूचना

अचल सम्पत्ति के लिए, नियम - 8(1)

कब्जा लेने

की तिथि

29.10.2021

29.10.2021

29.10.2021

29.10.2021

29.10.2021

29.10.2021

29.10.2021

29.10.2021

29.10.2021

29.10.2021

बकाया राशि

₹0, 6.82,999,26

ब्याज एवं अन्य

व्यय

₹60. 8,93,988.81

ब्याज एवं अन्य

व्यय

₹0. 19,28,559.63

ब्याज एवं अन्य

व्यय

₹0, 11,86,136.28

ब्याज एवं अन्य

₹0. 19,42,484.34

ब्याज एवं अन्य

व्यय

₩0. 13,27,629.85

ब्याज एवं अन्य

व्यय

₹0. 18,21,877.89

ब्याज एवं अन्य

₹ 6,97,404.21

ब्याज एवं अन्य

₩0. 11,67,253.61

ब्याज एवं अन्य

व्यय

₹60. 4,85,317,35

ब्याज एवं अन्य

प्राधिकृत अधिकारी

मांग नोटिस

की तिथि

29.05.2021

29.05.2021

29.05.2021

29.05.2021

29.05.2021

29.05.2021

29.05.2021

29.05.2021

29.05.2021

29.05.2021

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के तहत बैंक के पास बंधक⁄दृष्टिबंधक चल आस्ति की बिक्री जैसा कि, बैंक ऑफ बड़ौदा के अधिकृत प्राधिकारी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत निर्गत सूचना के अनुसार नीचे वर्णित के अनुसार बैंक के बकायों तथा ब्याज की वसूली हेतु निम्नलिखित ऋण खाते में निम्नलिखित सम्पत्ति के ''जहाँ है जैसे है'' तथा ''जो कुछ है वही है'' आधार पर बिक्री के अधिकार सहित कब्जा कर लिया था और जैसा कि बकायों के पुनर्भुगतान में असफल रहने के कारण अधोहस्ताक्षरी कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में कथित सम्पत्ति की बिक्री द्वारा बैंक के बकायों की वसूली का प्रस्ताव करता है। बिक्री अधोहस्ताक्षरी द्वारा वेबसाइट पर ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जायेगी।

चल/अचल सम्पत्तियों का विवरण

शाखा का नाम एवं खाता सम्पत्ति/वाहन के स्वामी का नाम	सम्पत्ति का विवरण	मॉग सूचना के अनुसार राशि मॉंग सूचना की तिथि	आरक्षित मूल्य ईएमडी न्यूनतम संविदा वृद्धि राशि	खाते में जमा की जाने वाली ईएमडी	ईएमडी तथा दस्तावेजों को जमा करने की अन्तिम तिथि	ई−नीलामी की तिथि∕समय	निरीक्षण की तिथि तथा समय	अधिकृत प्राधिकारी⁄सम्पर्क व्यक्ति तथा सम्पर्क नं
द्वारका सेक्टर 12 शाखा खाता : श्री रोहित कुमार रस्तोगी स्वामी का नाम : श्री रोहित कुमार रस्तोगी		रु. 4,39,016/-(रुपये चार लाख उनतालीस हजार सोलह मात्र) तथा मांग सूचना तिथि 04.09.2021 के अनुसार उस पर अनुबन्ध दर से ब्याज तथा भुगतान की तिथि तक लागतें, प्रभार एवं व्यय	रु. 4,88,000/ रु. 48,800/- रु. 5,000/-	खाता सं. 30300015181869 खाता नाम : सरफैसी ऑक्शन प्रोसीड्स कलेक्शन एकाउंट द्वारका सेक्टर 12 शाखा आईएफएससी कोड : BARB0DAWARK (बीच में शून्य है)	06.12.2021 4 बजे अप. तक		22.11.2021 से 26.11.2021 पूर्व अनुमित के साथ कार्यालयी घंटों के दौरान	मोबाइल : 7030301222 ई-मेल आईडी : dawark@ bankof-

अधिनियम के शीर्षक XXI के भाग 1 के अंतर्गत पंजीकरण के विषय में सचना देने के लिए विज्ञापन [कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 374 (बी) तथा कम्पनीज (पंजीकरण के लिए प्राधिकत) नियमावली, 2014 के नियम 4 (1) के अनुपालन

प्रपत्र सं. यूआरसी-2

1. एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 366 की उप-धारा (2) के अनुपालन में कम्पनी रजिस्ट्रार रा.रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा के पास इस सूचना के पन्द्रह दिनों के बाद किन्तु तीस दिनों की समाप्ति से पूर्व इस आशय का एक आवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है कि मै. लीडर्स इंक, पार्टनरशिप फर्म, जिसका कार्यालय यूजीएफ-3, प्लॉट नं. 891, नीतिखंड-1, इन्दिरापुरम गाजियाबाद-201014 में है को शेयर्स द्वारा एक कम्पनी लिमिटेड के रूप में कम्पनी अधिनियम, 2013 के शीर्षक XXI के भाग 1 के अंतर्गत

पंजीकृत की जाये। . कम्पनी के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं: आईटी, आईटीईएस, ऑडियो विडियो सॉल्यूशन्स, सॉफ्टवेयर एवं नेटवर्किंग का व्यवसाय करना तथा उपरोक्त उद्देश्यों के समान तथा अनुषांगिक सभी कार्य करना। . प्रस्तावित कम्पनी के ड्राफ्ट मेमोरैण्डम तथा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की प्रति यजीएफ-3. प्लॉट नं. 89, नीतिखंड-1, इन्दिरापुरम गाजियाबाद-201014 में कार्यालय में देखी जा सकती है।

. एतदद्वारा सचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इस आवेदन के प्रति कोई आपत्ति हो, वे उसके पंजीकृत कार्यालय में कम्पनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से इक्कीस दिनों के भीतर लिखित में अपनी आपत्ति केन्द्रीय पंजीकरण केन्द्र (सीआरसी), भारतीय कॉर्पोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए), प्लॉट नं. 6, 7, 8, सेक्टर 5. आईएमटी मानेसर, जिला गडगाँव (हरियाणा) पिन कोड-122050 में रजिस्टार के पास जमा करें।

> हस्ता./ आवेदकों का नाम मै. लीडर्स इंक, द्वारा उसके पार्टनर्स: 1. श्री संदीप मनोचा एवं

नियम एवं शर्तें

1. ई-नीलामी ''जैसा है जहाँ है''तथा ''जो कुछ भी वही है''आधार पर की जा रही है।

2. प्राधिकृत अधिकारी की सर्वश्रेष्ट ज्ञान एवं जानकारी में सम्पत्ति के प्रति अधिभार नहीं है। लेकिन, इच्छक क्रेता अपनी बोली जमा करने से पूर्व नीलामी की जाने वाली सम्पत्ति पर किसी अधिभारों, टाईटल तथा सम्पत्तिको प्रभावित करने वाले दावे/अधिकारों/ बकायों के विषय में स्वयं की स्वतंत्र जांच कर लें। ई–नीलामी विज्ञापन को बैंक की किसी प्रतिबद्धता अथवा किसी प्रतिनिधित्व का द्योतक नहीं है अथवा उसे उसका द्योतकनहीं माना जाएगा। सम्पत्ति को बैंक को ज्ञात अथवा अज्ञात वर्तमान तथा भविष्य के सभी अधिभारों के साथ बेचा जा रहा है। प्राधिकृत अधिकारी/ प्रतिभृत क्रेडीटर किसी भी थर्ड पार्टी दावे/ अधिकारों/ बकायों केलिए किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं होंगे।

3. बोली जमा करने से पूर्व आस्ति तथा विशिष्टि के विषय में निरीक्षण करना तथा स्वयं को सन्तुष्ट करना बोलीदाताओं का उत्तरदायित्व होगा। इच्छुक बोलादाताओं को नीलामी पर रखी सम्पत्ति के साइट पर निरीक्षण की अनुमति उपर्युक्त तालिका में प्रत्येक

सम्पत्ति/वाहन के सम्मुख उल्लिखित के अनुसार पूर्व अनुमति लेकर कार्यालयी घण्टों के दौरान दी जायेगी।

4. किसी प्राधिकरण (डीडीए, एमसीडी, आरटीओ आदि) द्वारा की गयी किसी माँग के मामले में बोलीदाता/क्रेता ऐसे प्राधिकरण द्वारा की गयी माँग के सभी बकाये अदा करेगा (चाहे वे लम्बित हों या कथित बिक्री से उत्पन्न हों या भविष्य में हों) और बोलीदाता/क्रेता

को इस सम्बन्ध में कोई अन्य लागतों/व्ययों का भी वहन करना होगा और यथा उल्लिखित के अनुसार किसी ऐसे प्राधिकरण द्वारा किसी ऐसी माँग के परिप्रेक्ष्य में बैंक का कोई दायित्व नहीं होगा।

5. इच्छुक संविदाकारों को अपनी ईएमडी वेब पोर्टल : https://bob.auctiontiger.net (यूजर आईडी तथा पासवर्ड https://bob.auctiontiger.net पर अपना नाम पंजीकृत करके निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है) के माध्यम से लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड के माध्यम से किया जाना है। ईएमडी उपर्युक्त तालिका में प्रत्येक सम्पत्ति के सम्मुख खाते में एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से जमा करनी होगी। कृपया ध्यान दें कि ईएमडी राशि के रूप में चेक/डिमाण्ड ड्राफ्ट स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

6. वेब पोर्टल पर बोलीदाता द्वारा पंजीकरण के उपरान्त इच्छुक बोलीदाता/क्रेता को संविदा(एँ) जमा करने की अन्तिम तिथि से पूर्व वेबपोर्टल में निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियाँ प्राप्त करना अपेक्षित है : (i) एनईएफटी/आरटीजीएस चालान की प्रति, (ii) पैन कार्ड की प्रति, (iii) पहचान पत्र का प्रमाण (केवाईसी) जैसे वोटर आईडी/ड्राइविंग लाइसेंस/पासपोर्ट आदि की स्व-प्रमाणित प्रति, (iv) पते के प्रमाण की प्रति, जिसके बिना संविदा अस्वीकार कर दी जायेगी। पूर्ण रूप से भरने तथा हस्ताक्षर करने के उपरान्त

परिशिष्ट II तथा III (निविदा सूचना में उल्लिखित) की स्कैन की गयी प्रति अपलोड करना। 7. जो इच्छुक बोलीदाता लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड सृजिन करने, डाटा अपलोड करने, संविदा जमा करने, ई-संविदा प्रक्रिया पर प्रशिक्षण लेने आदि के लिए सहायता चाहते हैं वे सम्पर्क कर सकते हैं : श्री नीतीश झा, मोबाइल : 7982880393, मैसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लि./ऑक्शन टाइगर, ए-801, वाल स्ट्रीट-II, सामने ओरिएण्ट क्लब, निकट गुजरात कॉलेज रोड, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद-380006, गुजरात, भारत, मेल आईडी : delhi@auctiontiger.net, दुरभाष : 079 61200595/594/598

एवं श्री राम शर्मा, मोबाइल 8000023297 ramprasad@auctiontiger.net तथा अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित पूछताछ के लिए ऊपर तालिका में प्रत्येक सम्पत्ति के सम्मुख के अनुसार कार्यालयी दिवसों में कार्यालयी अवधि के दौरान सम्पर्क कर सकते हैं। 8. केवल ऐसे बोलीदाताओं को ही ऑनलाइन ई-नीलामी में भाग लेने की अनुमित दी जाएगी जिनके पास वैध यूजर आईडी तथा पासवर्ड एवं एनईएफटी/आरटीजीएस/डीडी द्वारा ईएमडी के भुगतान का निश्चित प्रमाणहोगा। 9. जिन इच्छुक संविदाकारों ने अपनी ईएमडी आरक्षित मूल्य से ऊपर ऑनलाइन मोड में उपर्युक्त तालिका में प्रत्येक सम्पत्ति/वाहन के सम्पुक उल्लिखित तिथि पर 4.00 बजे अप. से पूर्व जमा कर दी है वे ई-संविदा प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र होंगे। उपर्युक्त

सम्पत्तियों की ई-नीलामी संविदाकारों के मध्य इंटर-से बोली के माध्यम से प्रत्येक सम्पत्ति के सम्पख उल्लिखित निर्धारित तिथि तथा समय पर ही संचालित की जायेगी। संविदाकार अपने प्रस्ताव प्रत्येक सम्पत्ति के सम्पख ''संविदा वृद्धि राशि'' स्तम्भ के तहत उल्लिखित राशि के गुणक में बढ़ायेंगे। यदि संविदा ई-नीलामी बन्द होने के समय अन्तिम 5 मिनटों में रखी जाती है तो बन्द होने का समय स्वतः 5 मिनट आगे बढ़ जायेगा (असीमित विस्तार। जो संविदाकार ई-नीलामी प्रक्रिया बन्द होने पर उच्चता संविदा राशि (आरक्षित मूल्य से कम नहीं) प्रस्तुत करते हैं उन्हें सफल बोलीदाता घोषित किया जायेगा और इस प्रभाव से उन्हें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सूचित किया जायेगा जो अधिकृत प्राधिकारी/प्रतिभूत लेनदार द्वारा अनुमोदन का विषय होगा।

10. सफल संविदाकार की जमा धरोहर राशि (ईएमडी) बिक्री वसुली के भाग के रूप में रख ली जायेगी और असफल संविदाकारों की ईएमडी वापस कर दी जायेगी। सफल संविदाकार को पहले से प्रदत्त ईएमडी समायोजित करके बिक्री मृल्य का 25% अधिकृत प्राधिकारी द्वारा संविदा मूल्य की स्वीकृति के पश्चात तुरन्त जमा करना होगा और बिक्री मूल्य का शेष 75% बिक्री के 15वें दिन तक या अधिकृत प्राधिकारी द्वारा लिखित में सहमित के आधार पर स्वीकृत विस्तारित अवधि के भीतर करना होगा। यदि सफल संविदाकार भुगतान करने में चुक करता है तो संविदाकार द्वारा पहले से जमा की गयी राशि जब्त कर ली जायेगी और सम्पत्ति को पुनः नीलामी पर रखा जायेगा और चुककर्ता कर्जदार सम्पत्ति/राशि के सम्बन्ध में किसी दावे/अधिकार से वंचित हो जायेगा।

11. सम्भावित क्वालिफाइड बोलीदाता ई-नीलाम पर मैसर्स ऑक्शन टाइगर प्रा.लि. से ई-नीलामी की तिथि से पूर्व प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। न तो अधिकृत प्राधिकारी/बैंक और न ही मैसर्स ऑक्शन टाइगर प्रा.लि. इन्टरनेट नेटवर्क सम्बन्धी किसी समस्या के लिए उत्तरदायी होंगे और इच्छुक संविदाकार को सुनिश्चित करना होगा कि वे ई–नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने हेतु तकनीकी रूप से पूरी तरह सुसज्जित हैं।

12. क्रेता को प्रयोज्य स्टाम्प शल्क/अतिरिक्त स्टाम्प शल्क/अन्तरण प्रभार, शल्क आदि का तथा किसी से भी सम्बन्धित समस्त विधिक/गैर-विधिक बकायों, करों, दरों, एसेसमेंट प्रभारों, शल्कों आदि का वहन करना होगा। 13. अधिकृत प्राधिकारी उच्चतम प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और अधिकृत प्राधिकारी हो किसी या सभी प्रस्ताव(वों) को स्वीकार या अस्वीकार करने अथवा बिना कोई कारण बताये ई–नीलामी को आस्थगित/रद्द/निरस्त करने का पूर्ण अधिकार है। 14. संविदाकारों को अपनी संविदाएँ जमा करने से पूर्व तथा ई-नीलामी में भाग लेने से पूर्व मैसर्स ऑक्शन टाइगर प्रा.लि. के वेबपोर्टल https://bob.auctiontiger.net तथा बैंक की वेबसाइट https://www.bankofbaroda.com में ई-नीलामी के तहत

उपलब्ध ई-नीलामी के विस्तृत नियम एवं शर्तों को ध्यानपूर्वक देख लेना चाहिए।

सरफैसी अधिनियम. 2002 के नियम 8(6) के तहत विधिक 30 दिवसीय बिक्री सचना कर्जदार/जमानतियों को एतद्वारा ई-नीलामी से पूर्व अद्यतन ब्याज तथा अनुषंगी व्ययों सहित ऊपर उल्लिखित राशि अदा करने के लिए अधिसूचित किया जाता है जिसमें असफल रहने पर सम्पत्ति की नीलामी/बिक्री कर दी जायेगी और शेष बकाया, यदि कोई, उसे

ब्याज तथा लागत सहित वसूल किया जायेगा। तिथि: 02.11.2021 प्राधिकृत अधिकारी बैंक ऑफ बड़ौदा

For Jauss Polymers Limited अनपालन अधिकारी Ketineni Satish Rao एम. नं. ए४२९४४ Place: Noida Managing Director तिथि: 4.11.2021 DIN: 02435513 स्थानः नोएडा

हस्ता./ दिशा सोनी कंपनी सचिव एवं

https://www.bseindia.com/ https://www.cse-india.com पर भी उपलब्ध एवन मर्केन्टाईल लि. के लिए दिनांक 4.11.2021

2. श्रीमती उमा वर्मा

स्थानः नई दिल्ली

Date: 03.11.2021 www.readwhere.com